



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1984]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 15, 2011/आश्विन 23, 1933

No. 1984]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 15, 2011/ASVINA 23, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2011

का.आ. 2377(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1068(अ), तारीख 16 मई, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के दाहोद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के 179.300 कि.मी. से 215.900 कि.मी. (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 10 जून, 2011 को “दि इण्डियन एक्सप्रेस” और “गुजरात समाचार” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी वित्तीय बिल्लिंगों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के कि.मी. 179.300 से कि.मी. 215.900 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश बार्डर सेक्शन) तक के भूखण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुका का नाम	गाँव का नाम	ब्लॉक/सर्वे संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दाहोद	दाहोद	नासीरपुर	3	निजी	कृषि	0-24-25	परमार रामुभाई सुरतानभाई परमार सामाबेन सुरतानभाई परमार सामसींगभाई सुरतानभाई परमार रमाबेन सुरतानभाई परमार कमाबेन सुरतानभाई परमार रसलीबेन वो सुरतानभाई की विधवा
				5/P/1	निजी	कृषि	0-05-06	बामणीया गुमजीभाई मानसींगभाई बामणीया मंगळीबेन वो तानसींगभाई की विधवा बामणीया भीमाभाई तानसींगभाई बामणीया सोमाभाई तानसींगभाई बामणीया दितुबेन वो हवलाभाई की विधवा बामणीया भुरीबेन हवलाभाई बामणीया रतनीबेन हवलाभाई की पुत्री बामणीया कसनीबेन हवलाभाई की पुत्री बामणीया रूपलीबेन वो मानसींगभाई की विधवा
				5/P/3	निजी	गैर कृषि	0-17-18	अब्दुल अजीज गनीभाई पटेल हुराबीबी गनीभाई पटेल हबीबीभाई गनीभाई पटेल हारूनभाई गनीभाई पटेल अब्दुल रहीमभाई गनीभाई पटेल
				7	निजी	कृषि	0-11-12	परमार सुकीयाभाई छत्राभाई परमार पारसींगभाई छत्राभाई परमार मंगळीबेन छत्राभाई परमार वेस्ताभाई मनीयाभाई परमार सदीयाभाई मनीयाभाई परमार झवरीबेन वो मनीयाभाई की विधवा परमार संगीताबेन वो काळीयाभाई की पुत्री
				8/1	निजी	कृषि	0-05-06	मिनामा सुकीयाभाई नाथीयाभाई मिनामा बीजीयाभाई नाथीयाभाई मिनामा लखमाबेन वो नाथीयाभाई की विधवा मिनामा मंगळीबेन नाथीयाभाई मिनामा काळीबेन नाथीयाभाई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8/3	निजी	कृषि	0-05-06	परमार सुकीयाभाई छत्राभाई परमार पारसीगभाई छत्राभाई परमार मंगळीबेन छत्राभाई परमार वेस्ताभाई मनीयाभाई परमार सदीयाभाई मनीयाभाई परमार झवरीबेन वो मनीयाभाई की विधवा परमार संगीताबेन वो काळीयाभाई की पुत्री
				14/P/1	निजी	कृषि	0-10-11	फातमाबीबी अब्दुलसलाम खलीफा हारुनभाई अब्दुलसलाम खलीफा महेमुदभाई अब्दुलसलाम खलीफा इब्राहीमभाई अब्दुलसलाम खलीफा नोमानभाई अयाजभाई खलीफा
				14	निजी	गैर कृषि	0-07-08	पलास सोनु नगरसिंह
				13/2	निजी	कृषि	0-06-07	फातमाबीबी अब्दुलसलाम खलीफा हारुनभाई अब्दुलसलाम खलीफा महेमुदभाई अब्दुलसलाम खलीफा इब्राहीमभाई अब्दुलसलाम खलीफा नोमानभाई अयाजभाई खलीफा
				15	निजी	कृषि	0-07-08	शुरीया संजयभाई जोखनाभाई शुरीया जानकीबेन जोखनाभाई शुरीया नानकीबेन जोखनाभाई शुरीया पार्वतीबेन जोखनाभाई शुरीया पारसीगभाई जोखनाभाई शुरीया बीजलीबेन वो जोखनाभाई की विधवा
				16	निजी	कृषि	0-06-07	सोयब महमूदभाई लेनवाला
				17	निजी	कृषि	0-05-06	सोयब महमूदभाई लेनवाला
				6	निजी	कृषि	0-03-04	सइदाबीबी अब्दुलहै रसूल की विधवा अब्दुलगनीभाई अब्दुलभाई कुलसुमबीबी अब्दुलभाई फातमाबीबी अब्दुलभाई सेरानभाई अब्दुलभाई इशाकभाई अब्दुलभाई अफझल इकबाल रझीया इकबाल इरसाद इकबाल रइसाबेन इकबालभाई खजमातुन इकबाल इरबाज इकबाल रुयहा इकबाल आयसाबीबी इकबालकी विधवा स.स रोशनबीबी फारुकभाई की विधवा फिरदोस फारुक सगीर फिरोझ फारुक सगीर फोरोना अब्दुलभाई इमतीयाझ इकबाल अफरोझ इकबाल, रुबीया इकबाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4	निजी	कृषि	0 - 05 - 06	कळमी काळीयाभाई खुनजीभाई कळमी दलुभाई खुनजीभाई कळमी दीतीयाभाई खुनजीभाई कळमी घेनीयाभाई खुनजीभाई कळमी टीदुभाई खुनजीभाई कळमी वेस्ताभाई मडीयाभाई कळमी शांताबेन मडीयाभाई कळमी शकरीबेन वो खुनजीभाई की विधवा

[फा. सं. भारराप्रा/बीओटी/डीबीएफओ/11019/01/2007]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2011

S.O. 2377(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number **S.O. 1068 (E)**, dated the **16th May, 2011**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 59 on the stretch of land from **Km 179.300 to Km 215.900 (Ahmedabad - Gujarat /MP Border Section)** in District Dahod in the State of Gujarat;

And whereas the substance of the said notification has been published in " The Indian Express " and " GUJARAT SAMACHAR ", both dated the 10th June, 2011, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 179.300 to Km 215.900 (Ahmedabad - Gujarat/MP Border) on the National Highway No. 59 in the State of Gujarat.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of village	Block / Survey number	Type of land	Nature of land	Area (In hectares)	Name of Person Interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dahod	Dahod	Nasirpur	3	Private	Agriculture	0 - 24 - 25	Parmar Ramubhai Surtanbhai Parmar Samaben Surtanbhai Parmar Samsingbhai Surtanbhai Parmar Ramaben Surtanbhai Parmar Kamaben Surtanbhai Parmar Rasiben Surtanbhai's widow
				5 / P / 1	Private	Agriculture	0 - 05 - 06	Bamaniya Gumjibhai Mansingbhai Bamaniya Mangliben Tansingbhai's widow Bamaniya Bhimabhai Tansingbhai Bamaniya Somabhai Tansingbhai Bamaniya Dituben Haviabhai's widow Bamaniya Shuriben Haviabhai Bamaniya Ratniben Haviabhai's Daughter Bamaniya Kasniben Haviabhai's daughter Bamaniya Rupliben Mansingbhai's Widow
				5 / P / 3	Private	Non Agriculture	0 - 17 - 18	Abdul Ajj Ganibhai Patel Hurabibi Ganibhai Patel Habibbhai Ganibhai Patel Harunbhai Ganibhai Patel Abdul Rahimbhai Ganibhai Patel

384761/11-2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7	Private	Agriculture	0 - 11 - 12	Parmar Sukiyabhai Chhatrabhai Parmar Parsingbhai Chhatrabhai Parmar Mangliben Chhatrabhai Parmar Vestabhai Maniyabhai Parmar Sadiyabhai Maniyabhai Parmar Zavriben who is widow of Maniyabhai Parmar Sangitaben who is daughter of kaliyabhai
				8 / 1	Private	Agriculture	0 - 05 - 06	Minama Sukiyabhai Nathiyabhai Minama Bijiyabhai Nathiyabhai Minama Lakhmaben Nathiyabhai's Widow Minama Mangaliben Nathiyabhai Minama Kaliben Nathiyabhai
				8 / 3	Private	Agriculture	0 - 05 - 06	Parmar Sukiyabhai Chhatrabhai Parmar Parsingbhai Chhatrabhai Parmar Mangliben Chhatrabhai Parmar Vestabhai Maniyabhai Parmar Sadiyabhai Maniyabhai Parmar Zavriben who is widow of Maniyabhai Parmar Sangitaben who is daughter of kaliyabhai
				14 / P / 1	Private	Agriculture	0 - 10 - 11	Fatmabibi Abdulsalam Khalifa Harunbhai Abdulsalam Khalifa Mahemudbhai Abdulsalam Khalifa
				14	Private	Non Agriculture	0 - 07 - 08	Palas Sonu Nagarsinh
				13 / 2	Private	Agriculture	0 - 06 - 07	Fatmabibi Abdulsalam Khalifa Harunbhai Abdulsalam Khalifa Mahemudbhai Abdulsalam Khalifa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Ibrahimbhai Abdulsalam Khalifa Nomanbhai Aayajbhai Khalifa
				15	Private	Agriculture	0 - 07 - 08	Bhuriya Sanjaybhai Jokhnabhai Bhuriya Jankiben Jokhabhai Bhuriya Nankiben Jokhabhai Bhuriya Parvatiben Jokhabhai Bhuriya Parsingbhai Jokhabhai Bhuriya Bijliben Jokhabhai's widow
				16	Private	Agriculture	0 - 06 - 07	Soyab Mahanmmadbhai Lenwala
				17	Private	Agriculture	0 - 05 - 06	Soyab Mahanmmadbhai Lenwala
				6	Private	Agriculture	0 - 03 - 04	Saidabibi Abdulhai Rasul's Widow Abdulganibhai Abdulbhai Kulsumbibhi Abdulbhai Fatmabibi Abdulbhai Seranbhai Abdulbhai Ishakbhai Abdulbhai Afzal Ikbal Razia Ikbal Irsad ikbal Raisaben Ikbalbhai Khajmatun Ikbal Irbaj Ikbal Ruvha Ikbal Aaysabibi Ikbal's widow s.s. Rosanbibhi Farukbhai's Widow Firdos Faruk Minor Firoz Faruk Minor Forona Abdulbhai Imtiyaz Ikbal Aafroz Ikbal Rubiya Ikbal
				4	Private	Agriculture	0 - 05 - 06	Kalmi Kaliyabhai Khunjibhai Kalmi Dalubhai Khunjibhai Kalmi Ditiyabhai Khunjibhai Kalmi Cheniyabhai Khunjibhai Kalmi Titubhai Khunjibhai Kalmi Vestabhai Madiyabhai Kalmi Shantaben Madiyabhai Kalmi Shakriben Khunjibhai's Widow

[F. No. NHAI/BOT/DBFO/11019/01/2007]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.